

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27—अक्टूबर 3, 2014 (आश्विन 5, 1936)

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27—OCTOBER 3, 2014 (ASVINA 5, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली—110001, दिनांक 8 जुलाई 2014

सं. आरएस/3/6/1/2014/57—कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में सहायक निदेशक (पी एंड पी) के रूप में कार्यरत श्रीमती संतोष नासा को 7 जुलाई, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक सचिवालय में 15600—39100 रुपए के वेतन बैंड-3, + 7600/— रुपए के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ उप निदेशक (पी एंड पी) के ग्रेड में नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 11 जुलाई 2014

सं. आरएस./6/4/2014/58—कार्मिक—दिनांक 11 जून की अधिसूचना सं. आरएस/6/4/2014/47—कार्मिक के अधिक्रमण में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के अध्यक्ष डा. नजमा हेपतुल्ला के वैयक्तिक स्टाफ में सह पदावसान आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त श्रीमती वत्सला जोशी की सेवाएं, 27 मई, 2014 से 15 दिनों की परिसमापन अवधि प्रदान करने के उपरांत 10 जून, 2014 के अपराहन से समाप्त की जाती हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 24 जुलाई 2014

सं. आरएस/3/6/1/2014/61-कार्मिक—श्री नीरज कुमार उपाध्याय, जिन्हें पहले दिनांक 14 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. आरएस/3/6/1/2012/16-कार्मिक द्वारा स्व-स्थाने आधार पर राज्य सभा सचिवालय में मुद्रण अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया गया था, को 24 जुलाई, 2014 के पूर्वाह्न से उक्त ग्रेड में नियमित रिक्ति पर समायोजित किया जाता है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 6 अगस्त 2014

सं. आरएस/6/2/2014/62-कार्मिक—वर्तमान में राज्य सभा के माननीय उप-सभापति (प्रो. पी. जे. कुरियन) के सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत डा. पी. जे. अन्तोनी को इस सचिवालय से कार्यमुक्त कर दिया गया है और उनकी सेवाएं 31 जुलाई, 2014 के अपराह्न से लोक सभा सचिवालय के अधीन कर दी गई हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 21 अगस्त 2014

सं. आरएस/6/3/2014/72-कार्मिक—जम्मू और कश्मीर सरकार से कार्यमुक्त होने के पश्चात् श्री खालिद जहांगीर (केएस) को 15600-39100 रुपए के वेतन बैंड-3 में + 8000/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री गुलाम नबी आज़ाद, के सचिव के रूप में 20 अगस्त, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया है।

2. श्री खालिद जहांगीर की नियुक्ति राज्य सभा में वर्तमान विपक्ष के नेता के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 29 अगस्त 2014

सं. आरएस/6/3/2014/79-कार्मिक—स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली से कार्यमुक्त होने के पश्चात् श्री प्रेम सिंह रावत को 15600-39100 रुपए के वेतन बैंड-3 में + 5400/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ राज्य सभा में विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद) के निजी सचिव के रूप में 11 अगस्त, 2014 के पूर्वाह्न से मानक विदेश सेवा शर्तों पर और आगामी आदेशों तक नियुक्त किया गया है।

2. श्री प्रेम सिंह रावत की नियुक्ति राज्य सभा में वर्तमान विपक्ष के नेता के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 1 सितम्बर 2014

सं. आरएस/6/4/2014/77-कार्मिक—राज्य सभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के अध्यक्ष [श्री सतीश चन्द्र मिश्रा] के वैयक्तिक स्टाफ में बाहरी सेवा शर्तों पर वर्तमान में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में कार्यरत श्री संतोष कुमार शर्मा की सेवाएं 1 सितम्बर, 2014 के पूर्वाह्न से इस सचिवालय से समाप्त की जाती हैं और उनकी सेवाएं नवोदय विद्यालय समिति के अधीन की जाती हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 9 सितम्बर 2014

सं. आरएस/3/7/2014/83-कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में उप निदेशक (संपादन एवं अनुवाद) के ग्रेड में कार्यरत श्री सुभाष चन्द्र को 1 सितम्बर, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15600-39100 रुपए के वेतन बैंड-3 + 8000/- रुपए के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ संयुक्त निदेशक (संपादन एवं अनुवाद) के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 अगस्त 2014

सं. आरएस/6/4/2014/68-कार्मिक—राज्य सभा में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेता [श्री सतीश चन्द्र मिश्रा] के वैयक्तिक स्टाफ में निजी सचिव के रूप में नियुक्त श्री संतोष कुमार शर्मा की सेवाएं 29 जुलाई, 2014 के अपराह्न से समाप्त की जाती हैं।

सुभा चन्द्रशेखर, सहायक निदेशक

सं. आरएस/6/4/2014/69-कार्मिक—श्री संतोष कुमार शर्मा को वेतन बैंड- 3 के वेतनमान में + 6600/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के अध्यक्ष श्री सतीश चंद्र मिश्रा के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में 30 जुलाई, 2014 के पूर्वाह्न से सहपदावसान आधार पर और आगामी आदेशों तक नियुक्त किया गया है।

2. श्री संतोष कुमार शर्मा की नियुक्ति सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

सुभा चन्द्रशेखर, सहायक निदेशक

योजना आयोग

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 सितम्बर 2014

सं. ए-19011/33/10-यूआई.डी.ए.आई.—यूआई.डी.ए.आई. (मुख्यालय) की अधिसूचना सं. ए-19011/33/10-यूआई.डी.ए.आई. दिनांक 04.01.2011 के अनुक्रम में तथा कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) द्वारा उनके का. ज्ञा. सं. 7/6/2010/ई.ओ. (एम.एम.-I) दिनांक 20.08.2014 द्वारा सूचित सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अनुसरण में, श्री पी. के. उपाध्याय, आई.सी.एस. (1996) द्वारा धारित ए.डी.जी. (उपसचिव स्तर) के पद को 03.01.2011 (पूर्वाह्न) से क्षेत्रीय कार्यालय, यूआई.डी.ए.आई. रांची को पुर्नपदनामित किया जाता है। अब यह पद 20.08.2014 से 02.01.2016 तक श्री उपाध्याय के लिए निजी तौर पर यूआई.डी.ए.आई., योजना आयोग में ए.डी.जी. (निदेशक स्तर) का होगा यानी श्री उपाध्याय की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि पांच वर्ष की होगी।

एन.के. शर्मा, उपनिदेशक (स्था.)

दिनांक 05 सितम्बर 2014

सं. ए-19012/85/14-यूआई.डी.ए.आई.—भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं. ए-12013/21(एस.ओ./हैडक्वार्टर)/11-यूआई.डी.ए.आई. दिनांक 10.07.2014, तथा नवोदय विद्यालय समिति के कार्यालय आदेश सं. डी.-6/1989-एन.वी.एस. (प्रशा.)/955 दिनांक 01.09.2014 के अनुसरण में, श्री एस. के. डोगरा ने, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय) में, वेतन बैंड 9300-34800+4800/- रु. ग्रेड पे, में प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 02.09.2014 (पूर्वाह्न) से अनुभाग अधिकारी के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनकी यह तैनाती तीन वर्ष के लिए या अगले आदेशों तक (जो भी पहले हो) की जाती है।

एन.के. शर्मा, उपनिदेशक (स्था.)

दिनांक 9 सितम्बर 2014

सं. ए-19011/124/2014-यू.आई.डी.ए.आई.—भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं. ए-12013/21/डी.डी.जी. (डी.)/10-यू.आई.डी.ए.आई. दिनांक 11.07.2014 तथा आकाशवाणी महानिदेशालय के आदेश संख्या 9/1/1996-एस-III (खण्ड-II) दिनांक 25.08.2014 के अनुसरण में, श्रीमती दीपाली शर्मा, आई.बी.ई.एस. (94) ने, दिनांक 08.09.2014 (पूर्वाहन) से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय) में, वेतन बैंड 37,400-6700/- + 8700/- रु. ग्रेड पे, में, सहायक महानिदेशक (ए.डी.जी.) के पद का कार्यभार संभाल लिया है। उनकी यह तैनाती तीन वर्ष के लिए या अगले आदेश होने तक (जो भी पहले हो) की जाती है।

एन.के.शर्मा, उपनिदेशक (स्था.)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 2014

सं. 14012/01/2014-अ.भा.से.-III—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख(खों) से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	संवर्ग	स्थायीकरण की तारीख
1.	संदीप कुमार सिंह	एजीएमयूटी	29.08.2013
2.	अमित मीणा	केरल	29.08.2013
3.	गोकुल जी. आर.	केरल	29.08.2013
4.	जीवन बाबू के.	केरल	29.08.2013
5.	कार्तिकेयन एस.	केरल	29.08.2013
6.	मीर मोहम्मद अली	केरल	29.08.2013

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 2014

सं. 20/एस/619-प्रशा.1—श्रीमती कुसुमा पद्मानाभन की 7 अप्रैल, 2011 पूर्वाहन से 15600-39100/- रु. और ग्रेड वेतन 7600/- रु. के वेतन बैंड-3 के वेतन ढांचे में नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव की श्रेणी में नियुक्ति से संबंधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 नवम्बर, 2011 के आदेश सं. ए 32014/1/2011-प्रशा.-1 में आंशिक संशोधन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पदोन्नति की तारीख को 07.04.2011 के स्थान पर 16.11.2011 पूर्वाहन पढ़ा जाए।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. 20/एस/1624-प्रशा.1—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10.01.2014 के आदेश सं. 5/1/2014-सीएस-1(यू) के तहत उनकी नियुक्ति के फलस्वरूप श्री एस.एस. वर्मा, अवर सचिव को वेतन बैंड 15600-39100/- रु. + ग्रेड वेतन 6600/- रु. में दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 अपराहन से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यबल में शामिल किया जाता है। दिनांक 31.12.2013 से 10.01.2014 तक की अवधि को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में 'अनिवार्य प्रतीक्षा' के रूप में समझा जाएगा।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. 20/एस/652—प्रशा. I—इस विभाग के दिनांक 30.04.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/2/2013-सीएस. II(ए) द्वारा सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में प्रोन्नति होने तथा तत्पश्चात् इस विभाग के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से स्थानांतरण के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, श्री यति राज सहगल, निजी सचिव को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में 15600-39100/- रुपये के वेतन बैंड-3, 6600 रुपये के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर (चयन सूची-2013) दिनांक 13.05.2014 के अपराहन से प्रधान निजी सचिव पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. 20/एस/655—प्रशा. I—प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय के दिनांक 29.05.2014 के आदेश संख्या ए-12023/01/2006-पीए द्वारा (श्री व्यालार रवि) के अतिरिक्त निजी सचिव पद से प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति श्री ए.वाई. आनंद राज, अतिरिक्त निजी सचिव को 15600-39100 रु. के वेतन बैंड-3+6600 रु. के ग्रेड वेतन में दिनांक 11.06.2014 के पूर्वाहन से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. 20/5/658—प्रशा. I—राष्ट्रपति, इस्पात मंत्रालय के दिनांक 28.05.2014 के आदेश सं. 2 (1)/2011-स्था. के तहत माननीय इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) के अपर निजी सचिव के पद से श्री पन्ना लाल, के प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 11.06.2014 के पूर्वाहन से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में 6600/-रु. के वेतन ग्रेड (ग्रेड-पे) सहित वेतन बैंड-3 (पीबी-3): 15,600 - 39,100 रु. में प्रमुख निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. 20/जी/1343—प्रशा. I—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.09.2013 के आदेश सं. 5/13/2013-सीएस- I(यू.) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड- I (अवर सचिव) में उनकी पदोन्नति एवं दिनांक 04.11.13 के का.ज्ञा.सं. 5/13/2012-सीएस- I(यू.) के तहत उन्हें प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करने के फलस्वरूप, श्री एम.के. हरिकुमार, जो कि वर्तमान में भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को दिनांक 23.09.13 के पूर्वाहन से वेतन बैंड 15600-39100/- रु.+ ग्रेड वेतन 6600/- रु. में नियमित आधार पर अवर सचिव (चयन सूची : 2011) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. ए.20/जी/1610—प्रशा. I—वर्ष 2012 के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के प्रधान निजी सचिव की चयन सूची में उनके नाम सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप तथा इस विभाग के दिनांक 30.08.2013 के आदेश सं. 3/6/2012-सीएस. II (क) द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में नामांकन के फलस्वरूप, राष्ट्रपति श्री एम. वेकेंटेश्वर राव, विद्युत मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के निजी सचिव को 04.09.2013 के पूर्वाहन से, अगले आदेशों तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में वेतन बैंड-3 रु. 15600-39100/-, ग्रेड वेतन रु. 6600/- में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

डी.के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. 20/जी/1625—प्रशा. I—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.01.2014 के आदेश संख्या 5/1/2014-सीएस- I(यू) के तहत डाक विभाग से इस विभाग में श्री संजय मेहता, अवर सचिव के स्थानांतरण के फलस्वरूप उनको 15,600-39,100/-रूपए + ग्रेड वेतन रूपए 6600/- के वेतन बैंड-3 में दिनांक 31 जनवरी, 2014 पूर्वाहन से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कार्यबल में शामिल किया जाता है।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. 20/जी/1630—प्रशा. I—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.12.2013 के आदेश संख्या 5/10/2013-सीएस-I(यू) के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से इस विभाग में उनके स्थानांतरण के फलस्वरूप श्री अभय जैन, अवर सचिव को वेतन बैंड 15,600-39,100/-रुपए + ग्रेड वेतन रुपए 6600/- में दिनांक 31 जनवरी, 2014 अपराह्न से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कार्यबल में शामिल किया जाता है।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. 20/जी/1644—प्रशा. I—राष्ट्रपति, स्थापना प्रभाग के दिनांक 19.03.2014 के पत्र सं. 6/2/2014-ईओ(एमएम-I) के तहत सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अवर सचिव के रूप में उनकी तैनाती के परिणामस्वरूप सुश्री मीरा मोहन्ती को 02 मई, 2014 के पूर्वाह्न से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक 6600/- रुपये के ग्रेड-वेतन सहित 15,600-39,100/- रुपये के वेतन-बैंड-3 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. ए.38014/10/2013—प्रशा. I—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री बिहारी लाल बुरई, प्रधान निजी सचिव (पीपीएस), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, दिनांक 28 फरवरी, 2014 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. ए.32013/05/2013—प्रशा. I—दिनांक 29.05.2013 के आदेश सं. 05/05/2013 सीएस-I (यू)(पार्ट-I) के तहत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से इस विभाग में उनके स्थानान्तरण के फलस्वरूप श्री आर.एस. सिकंदर, अवर सचिव को दिनांक 16.09.2013 के पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक, वेतन बैंड 3, 15600-39100 रु., ग्रेड वेतन 6600 रु. में इस विभाग की पदसंख्या में शामिल किया जाता है।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. ए.32013/02/2013—प्रशा. I—केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों की चक्रानुक्रम स्थानांतरण नीति के अंतर्गत दिनांक 18 जून, 2013 के आदेश सं. 4/3/2013-सीएस-I(डी) के द्वारा श्री एन. श्रीरामन के विद्युत मंत्रालय से स्थानांतरण के फलस्वरूप उनको वेतन बैंड 15600-39100/- रु. + ग्रेड वेतन 7600/- रु. के पी.बी.-3 में दिनांक 01 नवंबर, 2013 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यबल में शामिल किया जाता है।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. ए.32013/02/2013—प्रशा. I—ईओ प्रभाग के दिनांक 23 अक्टूबर, 2013 के कार्यालय जापन सं. 6/31/2013-ईओ (एमएम-I) के तहत केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत उप सचिव के रूप में नियुक्ति हेतु उनके चयन के फलस्वरूप श्री जगन्नाथ श्रीनिवासन, आईपीओएस-2002 को वेतन बैंड 15600-39100/- रु.+ग्रेड वेतन 7600/- रु. पी.बी.-3 में दिनांक 01 नवंबर, 2013 अपराह्न से चार वर्षों अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यबल में शामिल किया जाता है।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. क.38014/06/2014—प्रशा. I—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्रीमती इंदु चोपड़ा, निजी सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से 30 जून, 2014 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. ए. 38014/01/2014-प्रशा. I—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप, श्री एस. के. सरकार, भा.प्र.से. (पश्चिम बंगाल:1979), सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग दिनांक 31.07.2014 के अपराहन से सेवानिवृत्त होते हैं।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. 32013/1/2014-प्रशा. I—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.06.2014 के आदेश सं. 5/3/2014-सीएस- I(यू) के द्वारा श्री अशोक कुमार राय, अवर सचिव के कर्मचारी चयन आयोग से इस विभाग में स्थानांतरण के फलस्वरूप उनको वेतन बैंड 15600-39100/- रु. + ग्रेड वेतन 6600/- रु. के पी.बी.-3 में दिनांक 27 जून, 2014 पूर्वाहन से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यबल में शामिल किया जाता है।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. ए 32013/1/2014-प्रशा. I—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2014 के आदेश सं. 5/1/2014-सीएस- I(यू) के तहत श्री राज किशन वत्स, अवर सचिव का शहरी विकास मंत्रालय से इस विभाग में स्थानांतरण होने के परिणामस्वरूप, उन्हें वेतन बैंड -3 (रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन 6,600/-) में 24 जून, 2014 के पूर्वाहन से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की पद संख्या में शामिल किया जाता है।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर, 2014

सं. 24/पीए- I I/2014—राष्ट्रपति भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड— I के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तिथि से भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्त करते हैं:-

क्रमांक	अधिकारी का नाम (श्रीमति/सुश्री/श्री)	भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति की तिथि
1.	सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय	01.09.2014
2.	देवव्रत चट्टोपाध्याय	01.09.2014
3.	मदन लाल रैगर	01.09.2014

2. उपरोक्त अधिकारी भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति की तिथि से दो वर्षों की अवधि तक परीक्षाधीन रहेंगे।

3. उपरोक्त नियुक्तियाँ न्यायालय के वैसे निर्णय के अधीन होंगी, जिनका इन पदोन्नतियों पर असर पड़ सकता है।

पॉलोमी त्रिपाठी, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 2014

सं. 13019/11/84-पीएफ-आईईएस-केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के लिए अपने अनुरोध को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाने के परिणामस्वरूप प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत श्री यशपाल (आईईएस 1984) सचिव वित्त और प्रधान सलाहकार हरियाणा सरकार से 06.08.2014 (अपराहन) से स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सुधीर श्याम, निदेशक (आईईएस)

नई दिल्ली, दिनांक 1 सितंबर 2014

सं. 13028/01/2013-पीएफ-आईईएस-राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा-2013 के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में चयन हो जाने के परिणामस्वरूप, 29.8.2014 (अपराहन) से श्री साकेत मालवीय, भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी (आईईएस:2013) का तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार करते हैं ।

दीपक राव, उप निदेशक (आईईएस)

सं. 13028/02/2013-पीएफ-आईईएस-राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा-2013 के जरिए भारतीय विदेश सेवा (आईएएस) में चयन हो जाने के परिणामस्वरूप, 25.8.2014 (पूर्वाहन) से भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी श्री राहुल कुमार राकेश (आईईएस:2013) का तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार करते हैं ।

दीपक राव, उप निदेशक (आईईएस)

सं. 13028/07/2013-पीएफ-आईईएस-राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा-2013 में चयन हो जाने के परिणामस्वरूप, 29.8.2014 (अपराहन) से भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी श्री सात्विक देव (आईईएस:2013) का तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार करते हैं ।

दीपक राव, उप निदेशक (आईईएस)

सं. 13028/11/2013-पीएफ-आईईएस-राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा-2013 के जरिए भारतीय विदेश सेवा (आईएएस) में चयन हो जाने के परिणामस्वरूप, 25.8.2014 (पूर्वाहन) से सुश्री प्रेरणा शाही, भारतीय आर्थिक सेवा की अधिकारी (आईईएस:2013) का तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार करते हैं ।

दीपक राव, उप निदेशक (आईईएस)

दिनांक 2 सितंबर 2014

सं. 13028/01/87/पीएफ-आईईएस-श्री राजीव मल्होत्रा (आईईएस:1987) के द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48(1) के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हेतु किए गए अनुरोध को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाने के परिणामस्वरूप वे 31.08.2014 से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्त हो गए हैं ।

दीपक राव, उप निदेशक (आईईएस)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 सितंबर 2014

संख्या-पीएफजी(1064)/2014-प्रशा.-I-राष्ट्रपति, श्री अजय दास मेहरोत्रा, आईआरएस (आईटी:84) को कारपोरेट कार्य मंत्रालय में 37,400-67,000/-रुपए (पी.बी.-4) में 10,000/-रुपए के ग्रेड वेतन के साथ दिनांक 29 अगस्त, 2014 के पूर्वाहन से पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 28 अगस्त, 2019 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो पहले हो, संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

रवि वजीरानी, अवर सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 नवंबर 2013

सं.ए-12023/4/2013-स्था-I-राष्ट्रपति, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में नियमित पुस्तकालय एवं सूचना सहायक श्री जी. डी. पाणिग्रही को इसी विभाग में तदर्थ आधार पर पे बैंड-2 (रु.9300-34800) + ग्रेड पे रु.4600/- के वेतनमान में दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 के अपराहन से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा नियमित सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के उपलब्ध होने तक, अथवा अगले आदेश, इनमें से जो भी पहले हो, तक सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के तौर पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई है और इसके कारण अधिकारी को अनिश्चित अवधि तक उसी पद पर रहने अथवा उसी ग्रेड में नियमितीकरण का अथवा इस आधार पर वरिष्ठता, आदि का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2014

सं. ए-12022/17/2014-स्था—राष्ट्रपति, श्री मनु टेंटीवाल, आईआरएस (आईटी:2003) (03003) को श्री संतोष कुमार गंगवार, वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव के रूप में वस्त्र मंत्रालय में उप सचिव के स्तर पर पीबी-3 में 15600-39100 + ग्रेड वेतन 7600 में 01 अगस्त, 2014 के पूर्वाहन से 14.06.2018 की अवधि तक मंत्री के साथ सह-अस्तित्व के आधार पर अथवा जब तक वह मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करें अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

एस. पी. कतनौरिया, निदेशक

सं. ए-19011/8/2014-स्था—राष्ट्रपति, श्री संजय कुमार पांडा, आईएएस(एमटी:80) को 01 अगस्त, 2014 के पूर्वाहन से सचिव, वस्त्र मंत्रालय के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. पी. कतनौरिया, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 2014

सं. ए-19011/10/2014-स्था: राष्ट्रपति, श्री आर.वी.सुब्रामनी, केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 जुलाई, 2014 के आदेश सं. 4/2/2014-सीएस-I(डी) के अनुपालन में चयन श्रेणी (उप सचिव) वेतनमान पीबी-3 (15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 7600) में वस्त्र मंत्रालय में 04 अगस्त, 2014 के पूर्वाहन से आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

मतियस बिहां, अवर सचिव

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2014

सं. 3/21/2003-स्था.(खंड-II)—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 17/4/2013-ईओ (एमएम-I), दिनांक 24.07.2014 के अनुसरण में, श्री पृथुल कुमार, उप सचिव को खान मंत्रालय में 18.12.2018 तक की अवधि अर्थात् केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत पांच वर्षों के कुल कार्यकाल के लिए 30.07.2014 (पूर्वाहन) से निदेशक के रूप में पुनः पदनामित करते हैं।

ए. के. मलिक, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर 2014

सं. पी.एफ.(2927)/स्था.1—खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अनुभाग अधिकारी, श्रीमति कुमकुम भटनागर द्वारा सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए मूल नियम 56(के) के अंतर्गत दिए नोटिस दिनांक 10.06.2014 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तदनुसार, श्रीमति कुमकुम भटनागर, अनुभाग अधिकारी स्वैच्छा से सरकारी सेवा से 11.09.2014 पूर्वाह्न को सेवानिवृत्त होगी।

अरुण कुमार, अवर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 2014

सं. ए.-22012/1/2016-स्थापना---राष्ट्रपति महोदय ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रीमती प्रतिभा रानी (सीएसएल 8269) को पे बैंड (पीबी-3) के 15,600--39100/- रूपए जमा 6,600/- रु. ग्रेड पे में पंचायती राज मंत्रालय में 4 जुलाई, 2014 से 'नियमित' आधार पर अवर सचिव के तौर पर नियुक्त करते हैं।

आर. शिवा कुमार, अवर सचिव

दिनांक 8 सितम्बर 2014

सं. ए.-32013/1/2014-स्था.---कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं. 5/6/2013-सीएस.1(यू), दिनांक 4 जुलाई, 2014 के अनुसार सीएसएस के श्रेणी-1 (अवर सचिव) में नियुक्ति हेतु चयन सूची वर्ष 2012 में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति महोदय ने निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 04.07.2014 से 15,000--39,100/- जमा 6,600/- रु. के ग्रेड पे के पे बैंड (पीबी-3) में नियमित आधार पर सीएसएस के अवर सचिव के तौर पर नियुक्त किया है।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम / सर्वश्री	सीएसएल सं.	धारित पद एवं नियुक्ति का स्थान	आवंटित अ.स. श्रेणी की चयन सूची
1.	अरविंद कुमार मिश्र	7251	अवर सचिव (तदर्थ) पंचायती राज मंत्रालय	वर्ष 2012
2.	पुनीत शर्मा	7358	अवर सचिव (तदर्थ) पंचायती राज मंत्रालय	वर्ष 2012
3.	संजय कुमार उपाध्याय	7365	अवर सचिव (तदर्थ) पंचायती राज मंत्रालय	वर्ष 2012

आर. शिवा कुमार, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 2014

सं.ए.-32015/2/2014-स्था.-III: राष्ट्रपति, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वैयक्तिक सहायक श्रीमती मीना सोनी (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा) का नाम चयन सूची वर्ष 2012 की निजी सचिव की चयन सूची में शामिल

किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) की कैडर यूनिट में 02.07.2014 (अपराहन) से वेतन बैंड-2 (9,300 रु. -34,800/- रु. + 4,800/- रु. के ग्रेड वेतन) में नियमित आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 23 जुलाई 2014

सं.ए.-32015/2/2014-स्था.-III: राष्ट्रपति, शहरी विकास मंत्रालय के वैयक्तिक सहायक श्री मदन मोहन शर्मा (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा) का नाम चयन सूची वर्ष 2012 की निजी सचिव की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) की कैडर यूनिट में 18.07.2014 (अपराहन) से वेतन बैंड-2 (9,300/- रु. -34,800 रु. + 4,800/- रु. के ग्रेड वेतन) में नियमित आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 2014

सं. 4-2/2013-प्रशासन--- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार श्रीमती पद्मजा मेहता अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 30.04.2014 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो जाएंगी।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 16 मई 2014

सं. 3-2/2010-प्रशासन--- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01 मई, 2014 के आदेश सं. 7/5/2011/-ईओ(एसएम-1) अनुसरण में डॉ० श्रीरंजन : भा.प्र.से. (एम: 85), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) में उप महानिदेशक के रूप में अपना नया कार्यभार संभालने के लिए दिनांक 19.05.2014 के पूर्वाहन से कार्यमुक्त किया जाता है।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 27 मई 2014

सं. 2-1/2009-प्रशासन: श्रीमती कृष्णा तीरथ, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के कार्यमुक्त होने के परिणामस्वरूप, श्री संजीव खिरवार, आईएस(एजीएमयूटी : 94) महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग में रिपोर्ट करने के लिए दिनांक 10.06.2014 के अपराहन से मंत्रालय से कार्यमुक्त किया जाता है।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 14 जुलाई 2014

सं. 5-7/2013-प्रशासन--- कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 4 जुलाई, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/6/2013-सीएस-1 (यू) के 2012 की चयन सूची में सीएसएस के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में इनके नाम के समावेशन के परिणामस्वरूप, श्री मोहन लाल (सीएसएल सं 7814), नियमित अनुभाग अधिकारी को नियमित आधार पर 04 जुलाई,

2014 (पूर्वाहन) से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग में पे बैंड पी बी-3, 15,600-35,100/- साथ ही 6,600/- ग्रेड पे पर नियमित आधार पर ग्रेड-1 (अवर सचिव) नियुक्त करते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

सं. 22-39/2011-प्रशासन—राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग के आदेश सं. 13016/2/2014-आईईएस दिनांक 06 मार्च, 2014 एवं 20.06.2014 के अनुसरण में सुश्री कीर्ति सक्सेना (आईईएस : 1982) को 01 जुलाई, 2014 को पूर्वाहन से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 10,000/-रुपये के ग्रेड पे के साथ 37,400-67000/-रुपये (पीबी-4) के पे बैंड में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 15 जुलाई 2014

सं. 4-20/2010-प्रशासन : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में निदेशक श्री एच.एस. नंदा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31.7.2014 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो जाएंगे।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 22 जुलाई 2014

सं. 4-10/2014-प्रशासन—राष्ट्रपति, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.07.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 26/07/2014 ईओ (एसएम-1) के अनुसरण में तथा मेघालय सरकार की दिनांक 21 जुलाई, 2014 की अधिसूचना सं. पीईआर.15/आई.एस.वीएसओ/114 के द्वारा कार्यमुक्त होने के परिणामस्वरूप श्री विनय शील ओबेरॉय, आईएस (एसएम:79) को दिनांक 22 जुलाई, 2014 की पूर्वाहन से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव नियुक्त करते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 30 जुलाई 2014

सं. 2-2/2014-प्रशासन—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03 जुलाई, 2014 के का.ज्ञा. सं. 4/5/2014 -ईओ (एसएम-1) के अनुसरण में और दिनांक 24 जुलाई, 2014 के आदेश सं. डीसीईपी/प्रशासन/56/2011 में निर्यात संवर्धन महानिदेशालय, राजस्व विभाग श्री मनोज कुमार अरोड़ा आईआरएस (सी एंड सीई:1990) को निदेशक के पद पर 05 वर्ष की अवधि के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) के निजी सचिव के रूप में मंत्री के साथ को-टर्मिनस आधार पर अथवा जब तक वे मंत्री के निजी सचिव के कार्यभार में रहते हैं अथवा आगे के आदेश तक, जो कोई भी पहले हो, 25 जुलाई, 2014 के पूर्वाहन से पे बैंड-4 (31,400-67,000/-) जीपी 8,700/-) के साथ नियुक्त किया जाता है।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 4 अगस्त 2014

सं. 5-12/2012-प्रशासन: राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 जुलाई, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 26/7/2014/-ईओ(एसएम-1) के अनुसरण में श्री शंकर अग्रवाल, भा.प्र.से. (उ.प्र. : 80) सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सचिव, शहरी विकास मंत्रालय के रूप में अपना नया कार्यभार संभालने के लिए दिनांक 14.07.2014 के पूर्वाहन से कार्यमुक्त करते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 12 अगस्त 2014

सं.2-2/2014-प्रशासन----राष्ट्रपति, श्रीमती मंजीत गुप्ता को महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) के सहायक निजी सचिव के रूप में दिनांक 28.07.2014 के (पूर्वाहन) से 5,400/- रुपये के साथ पे बैंड-3 (15,600-39,100/-) में नियुक्त करते हैं।

2. श्रीमती मंजीत गुप्ता की नियुक्ति मंत्री के कार्यकाल के साथ अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के साथ-साथ समाप्त होगी।

नवीन यादव, अवर सचिव

सं. 27-1/2012-प्रशासन----राष्ट्रपति कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 जुलाई, 2014 के आदेश सं. 4/2/2014-सीएस.। (डी) के अनुसरण में, श्रीमती शिप्रा रॉय, केंद्रीय सचिवालय सेवा की नियमित ग्रेड-। अधिकारी(अवर सचिव) को दिनांक 01 अगस्त 2014 के पूर्वाहन से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर 7600/-रुपये ग्रेड पे के साथ (पे बैंड-3, 15,600-39,100/-रुपये) में चयनित ग्रेड में उप-सचिव नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के ऊपर उल्लिखित आदेश की शर्तों के अध्यधीन हैं ।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 14 अगस्त 2014

सं. 2-2/2014-प्रशासन----राष्ट्रपति श्री संजीव गुप्ता को दिनांक 12.08.2014 के अपराहन से पे बैंड-3 [15,600-39,100/-] में ग्रेड पे 6,600/- के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री मेनका संजय गांधी) का अतिरिक्त निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

2. श्री संजीव गुप्ता की नियुक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्री की कार्य अवधि के सहअवसान तक अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक है।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 22 अगस्त 2014

सं. 2-2/2014-प्रशासन----राष्ट्रपति, श्री आनन्द लाल चौधरी को दिनांक 19.08.2014 (पूर्वाहन) से ग्रेड पे 6600/- रुपये के साथ पे बैंड-3 (15600-39100) में महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) का अतिरिक्त निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

2. श्री आनन्द लाल चौधरी की नियुक्ति मंत्री के कार्यकाल के साथ अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के साथ-साथ समाप्त होगी।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 25 अगस्त 2014

सं. 4-10/2012-प्रशासन----महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्रीमती नीलम सिबल, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप, दिनांक 31.8.2014 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगी।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 26 अगस्त 2014

सं. 4-22/2005-प्रशासन---महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्रीमती सरोजिनी भट्ट सीसीएस(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48(1)(क) के अंतर्गत स्वैच्छिक आधार पर सेवा निवृत्ति के लिए अपना विकल्प देने पर दिनांक 22.08.2014 (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगी।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 4 सितम्बर, 2014

सं. 2-2/2014-प्रशासन---राष्ट्रपति, श्री दलीप चन्द शर्मा को दिनांक 01.06.2014 (पूर्वाह्न) से ग्रेड पे 4,800/- रुपये के साथ पे बैंड-2 (9,300-34,800/- रुपये) में महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) का प्रथम निजी सहायक नियुक्त करते हैं।

2. श्री दलीप चंद शर्मा की नियुक्ति मंत्री की कार्यावधि के साथ अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के साथ-साथ समाप्त होंगी।

नवीन यादव, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 जुलाई 2014

संख्या ए-32013/01/2014-स्थापना I---कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.07.2014 के का.ज्ञा. संख्या 5-6/2013-सीएसआई(यू) के अनुसरण में वर्ष 2012 की चयन सूची में शामिल कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अवर सचिवों (तदर्थ) को दिनांक 04.07.2014 से (पूर्वाह्न) से डिसेबिलिटी कार्यविभाग में, नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) ग्रेड (1) अवर सचिव नियुक्त करते हैं :-

क्रम. संख्या	अधिकारी का नाम(श्री)	सीएसएस संख्या
1.	सुनिल कुमार महतो	7284
2.	अरुण कुमार मंडल	7963
3.	डी.के. पांडा	7834

2. उपर्युक्त अवर सचिवों की नियुक्ति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.07.2014 के का. ज्ञा. संख्या 5-6/2013 सीएस. 1 (यू) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार होगी।

प्रदीप पुरोहित, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 अगस्त 2014,

सं. 4(734)/05-कार्मिक-I---इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में ए0एल0आई0ओ0, श्री शिव कुमार शर्मा (कर्मचारी कोड सं. 329) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.08.2014 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

विनोद कुमार, उप निदेशक

सं. 4(464)/89—कार्मिक—I—इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त निदेशक, श्री अल्ताफ खान (कर्मचारी कोड सं. 266) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.08.2014 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

विनोद कुमार, उप निदेशक

सं. 4 (832)/09—कार्मिक—I—इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में निजी सहायक, श्रीमती मीना कल्याणी (कर्मचारी कोड सं. 419) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.08.2014 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगी।

विनोद कुमार, उप निदेशक

सं. 4(824)/09—कार्मिक—I—इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में निजी सहायक, श्री एन0वी0 बालाकृष्णन (कर्मचारी कोड सं. 421) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.08.2014 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

विनोद कुमार, उप निदेशक

दिनांक 3 सितम्बर 2014

सं. 3(5)/2013—कार्मिक—I—राष्ट्रपति जी ने श्री एस. रामाकृष्णन, संयुक्त निदेशक (इन-सीटू) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में दिनांक 03.09.2014 के पूर्वाह्न से 7,600/-रुपए प्रतिमाह के ग्रेड वेतन सहित 15,600—39,100/-रुपए के पे बन्ड-3 में नियमित □ धार पर संयुक्त निदेशक नियुक्त किया ह□

विनोद कुमार, उप निदेशक

डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 जून 2014

सं. 2-1/2013-प्रशासन: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25, सितंबर, 2013 के कार्यालय जापन सं.6/2/2013-सीएस-1(एस)-III के तहत चयन सूची वर्ष 2011 के लिए वरिष्ठता कोटा के सापेक्ष केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में उनके समावेशन के परिणामस्वरूप सक्षम प्राधिकारी, डाक विभाग के संवर्ग में सीएसएस के निम्नलिखित सहायकों को उसी संवर्ग में सीएसएस के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में 9300-34800/-रु.+ 4800/-रु. (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड (पीबी-2) में नियमित आधार पर 11-06-2014से नियुक्त करते हैं:-

- (i) श्री रमेश चन्द्र
- (ii) श्री अवधेश जोशी

2. उपर्युक्त कर्मचारियों की नियुक्ति उपर्युक्त कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन में वर्णित शर्तों के अध्यधीन होगी।

विजयलक्ष्मी भारद्वाज, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 सितम्बर 2014

सं. ए. 12025/02/2009—आर. एस. (खंड-2)—राष्ट्रपति, नागर विमानन मंत्रालय के अधीन रेल संरक्षा आयोग में श्री ई. श्रीनिवास, आई. आर. एस. एस. ई., वरिष्ठ मण्डल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता, दक्षिण पश्चिम रेलवे, को उपायुक्त रेल संरक्षा (संकेत एवं दूर संचार) के रूप में वेतन ग्रेड 8,700/- रुपये सहित वेतन बैंड-4 (रु. 37,400—67,000/-) में दिनांक 18.06.2014 (पूर्वाह्न) से 05 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो तक प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं।

अमित घोषाल, अवर सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 9 सितम्बर 2014

सं. ई(जी.पी.)2004/1/49-दिनांक 08.06.2009 की अधिसूचना सं. ई(जी.पी.)2007/3/2 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री मुरारी शेट्टी प्रसाद की भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग सेवा (आई.आर. एस.ई.) के कनिष्ठ वेतनमान में 2007-08 पैनेल में दक्षिण रेलवे पर नियुक्ति को रद्द समझा जाए।

2. तत्पश्चात् राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलवे के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के श्री मुरारी शेट्टी प्रसाद की दक्षिण रेलवे के 2005-06 पैनेल पर 12.06.2008 से भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग सेवा (आई.आर. एस.ई.) के कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्ति करते हैं।

सुमन शर्मा, निदेशक, स्था. (राज. पदो.)

रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर 2014

सं. ईआरबी-1/2007/10/4---श्री राजीव कुमार भंडारी, अनुभाग अधिकारी, रेलवे बोर्ड का दिनांक 20.08.2014 को निधन हो गया है।

पी. सी. गजभिये, सचिव

रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 2014

सं. ए.ए-32012/1/2013-Estt.—राष्ट्रपति, श्री वी. एस. सेहरावत, चार्टरिंग अधिकारी को पीबी-4, रु. 37,400/—-67,000/— + ग्रेड पे रु. 8,700/— के वेतनमान में दिनांक 05.09.2014 (पूर्वाह्न) से पोत परिवहन मंत्रालय में प्रोन्नति पर नियमित आधार पर उप प्रमुख चार्टरिंग नियंत्रक के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अनुराग शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 सितम्बर 2014

सं. एल.एच-21013/1/2012-एलएल—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधीक्षकों को कार्यकारी अधिकारी के पद पर पे बैंड-2 रु0 9,300-34,800/— + रु0 4,600/— के ग्रेड वेतन में दीपस्तंभ एवं दीपपोत महानिदेशालय में उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से पदोन्नति प्रदान करते हैं :-

क्रम संख्या	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	श्री एस. मरांडी	05-08-2014 (अपराह्न)
2	श्री एन.बी. वेकारिया	10-07-2014 (अपराह्न)
3	श्री सचेन्द्र सिंह रावत	04-08-2014

संजय मित्तल, अवर सचिव

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 सितम्बर, 2014

संख्या ए-12025/1/2011-आईआईएस(भाग फाइल)/729---राष्ट्रपति सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित उम्मीदवारों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीखों से 5,400/- रु. के ग्रेड-पे सहित 15,600-39,100/- रु. के पे-बैंड में भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्त करते हैं:-

क्र. सं.	सीएसई संख्या के साथ उम्मीदवारों के नाम	रैंक सं.	नियुक्ति की तारीख	तैनाती का स्थान
1.	श्री शान्तनु प्रताप सिंह (सीएसई-2011)	400	21.05.2014 (पूर्वाहन)	दूरदर्शन, नई दिल्ली
2.	श्री रेनी विलफ्रेड (सीएसई-2011)	558	23.06.2014 (पूर्वाहन)	पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली
3.	श्री सुहर्षा भगत (सीएसई-2011)	693	13.06.2014 (पूर्वाहन)	दूरदर्शन, नई दिल्ली

2. उपर्युक्त अधिकारी भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होंगे। उन्हें अगले आदेशों तक उपर्युक्त माध्यम एककों में सहायक निदेशकों के रूप में तैनात किया गया है।

नीरज कुमार, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 8th July 2014

No.RS/3/6/1/2014/57-Perl—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Santosh Nasa, Assistant Director (P&P) in the Rajya Sabha Secretariat, to the grade of Deputy Director (P&P) on regular basis in that Secretariat in the PB-3 of Rs. 15600-39100+ Grade Pay of Rs. 7600 plus usual allowances as admissible under rules with effect from the forenoon of 7th July, 2014 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

The 11th July 2014

No.RS/6/4/2014/58-Perl—In supersession of Notification No. RS/6/4/2014/47-Perl. Dated the 11th June, 2014, the services of Smt. Vatsala Joshi as Senior Private Secretary on co-terminus basis in the personal staff of Chairperson, Committee on Subordinate Legislation [Dr. Najma Heptulla] stands terminated w.e.f. the afternoon of 10th June, 2014 after granting her a winding up period of 15 days w.e.f. 27th May, 2014.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

The 24th July 2014

No.RS/3/6/1/2014/61-Perl—Shri Neeraj Kumar Upadhyay, who was earlier appointed to the grade of Printing Officer in the Rajya Sabha Secretariat on *in-situ* basis vide Notification No. RS/3/6/1/2012/16-Perl. dated 14th March, 2012, stands adjusted against a regular vacancy in the said grade w.e.f. the forenoon of 24th July, 2014.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

The 31st July 2014

No.RS/6/2/2014/62-Perl.—Dr. P.J. Antony, presently working as Secretary to Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha (Prof. P.J. Kurien) on deputation, is relieved of his duties in this Secretariat and his services stand placed at the disposal of Lok Sabha Secretariat w.e.f. the afternoon of 31st July, 2014.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

The 21st August 2014

No.RS/6/3/2014/72-Perl.—On being relieved from the Government of Jammu & Kashmir, Shri Khalid Jahangir (KAS) is appointed as Secretary to the Hon'ble Leader of Opposition, Rajya Sabha (Shri Ghulam Nabi Azad) in Pay scale of PB-3-Rs. 15600-39100 + 8000 w.e.f. the forenoon of 20th August, 2014 on deputation basis and until further orders.

2. The appointment of Shri Khalid Jahangir is at the discretion of the present Leader of Opposition, Rajya Sabha and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

The 29th August 2014

No.RS/6/3/2014/79-Perl.—On being relieved from the State Trading Corporation of India Limited, New Delhi, Shri Prem Singh Rawat is appointed as Private Secretary to the Hon'ble Leader of Opposition, Rajya Sabha (Shri Ghulam Nabi Azad) in Pay scale of PB-3, Rs. 15600-39100 + 5400 w.e.f. the forenoon of 11th August, 2014 on standard foreign service terms and until further orders.

2. The appointment of Shri Prem Singh Rawat is at the discretion of the present Leader of Opposition, Rajya Sabha and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

The 1st September 2014

No.RS/6/4/2014/77-Perl.—Shri Santosh Kumar Sharma, presently working as Senior Private Secretary in the personal staff of Chairman, Committee on Government Assurances, Rajya Sabha (Shri Satish Chandra Misra) on foreign service terms, is relieved of his duties in this Secretariat and his services stand placed at the disposal of Navodaya Vidyalaya Samiti w.e.f. the forenoon of 1st September, 2014.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

The 9th September 2014

No.RS/3/7/2014/83-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Subhash Chander, Deputy Director (E&T) in the Rajya Sabha Secretariat, to the grade of Joint Director (E&T) on regular basis in that Secretariat in the PB-3 of Rs. 15600-39100+ Grade Pay of Rs. 8000/- plus usual allowances as admissible under rules with effect from the forenoon of 1st September, 2014 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

New Delhi-110001, the 11th August 2014

No.RS/6/4/2014/68-Perl.—The services of Shri Santosh Kumar Sharma as Private Secretary in the personal staff of Leader of Bahujan Samaj Party (BSP) in Rajya Sabha [Shri Satish Chandra Misra] stand terminated w.e.f. the afternoon of 29th July, 2014.

SUBHA CHANDRASHEKAR, Asstt. Director

No.RS/6/4/2014/69-Perl.—Shri Santosh Kumar Sharma has been appointed as Senior Private Secretary in the personal staff of Shri Satish Chandra Misra, Chairman, Committee on Government Assurances in the scale of Pay of Pay Band-3 + Grade Pay of Rs.6600 w.e.f. the forenoon of 30th July, 2014 on co-terminus basis and until further orders.

2. The appointment of Shri Santosh Kumar Sharma is at the discretion of the present Chairman, Committee on Government Assurances and will be co-terminus with the term of his office.

SUBHA CHANDRASHEKAR, Asstt. Director

PLANNING COMMISSION

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

New Delhi-110001, the 4th September 2014

No. A-19011/33/10-UIDAI.—In continuation of UIDAI HQ Notification No. A-19011/33/10-UIDAI dated 04.01.2011 and in pursuance of approval of the Competent Authority as conveyed by Department of Personnel & Training (DOPT) vide their OM No.7/6/2010-EO (MM-I), dated 20.08.2014, the post of ADG (Deputy Secretary level) held by Shri P.K. Upadhyay, ICoAS (1996) w.e.f. 03.01.2011(FN) in the Regional office of UIDAI Ranchi, is re-designated as ADG (Director level), as a measure personal to him in UIDAI, Planning Commission with effect from 20.08.2014 and for a period up to 02.01.2016 i.e. total tenure of five year of his central deputation tenure.

N. K. SHARMA, Dy. Director (Esstt.)

The 5th September 2014

No. A-19012/85/14-UIDAI.—In pursuance of Unique Identification Authority of India, Planning Commission, New Delhi letter No. A-12013/21(SO/HQ)/11-UIDAI dated 10.07.2014 and Navodaya Vidyalaya Samiti's Office Order No. D-6/1989-NVS(Admn)/955 dated 01.09.2014, Shri S.K Dogra has assumed the charge of the post of Section Officer in HQ, Unique Identification Authority of India, Delhi w.e.f 02.09.2014 (FN) in the Pay Band of Rs. 9300-34800 + Grade Pay of Rs. 4800/- on deputation basis for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

N. K. SHARMA, Dy. Director (Esstt.)

The 9th September 2014

No. A-19011/124/2014-UIDAI.—In pursuance of Unique Identification Authority of India, Planning Commission, New Delhi letter No. A-12013/21/ADG(D)/10-UIDAI dated 11.07.2014 and DG:AIR's Order No. 9/1/1996-SIII Vol.II dated 25.08.2014, Smt Deepali Sharma, IBES(94) has assumed the charge of the post of Assistant Director General (ADG) in HQ, Unique Identification Authority of India, New Delhi w.e.f 08.09.2014 (F/N) in the Pay Band of Rs. 37400-67000+ Grade Pay of Rs. 8700/- on deputation basis for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

N. K. SHARMA, Dy. Director (Estt.)

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 4th September 2014.

No.14012/01/2014 - AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service of 2011 batch in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them:—

Sl. No.	Name of Officer (S/Sh.)	Cadre	Due Date of Confirmation
1	SANDEEP KUMAR SINGH	AGMUT	29.08.2013
2	AMIT MEENA	KERALA	29.08.2013
3	GOKUL G R	KERALA	29.08.2013
4	JEEVAN BABU K	KERALA	29.08.2013
5	KARTHIKEYAN S	KERALA	29.08.2013
6	MIR MOHAMMED ALI	KERALA	29.08.2013

NAVNEET MISRA, Under Secy.

New Delhi, the 4th September 2014

No. 20/S/619-Ad.I—In partial modification of this Department's Notification No. A.32014/1/2011-Ad.I dated 29th November, 2011, regarding nomination of Smt. Kusuma Padmanabhan for appointment to the grade of regular Senior Principal Private Secretary in the Pay structure of PB-3 of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay Rs. 7600 with effect from forenoon of 7th April, 2011, the undersigned is directed to say that the date of promotion may be read as w.e.f. forenoon of 16.11.2011 instead of 07.04.2011.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No.20/G/1624-Admn.I—Consequent upon his posting vide DoP&T's Order No. 5/1/2014-CS-I(U) dated 10.01.2014, Shri S. S. Verma, Under Secretary is taken on strength of Department of Personnel & Training in the PB-3 of Rs. 15600-39100/- + Grade Pay of Rs. 6600/- with effect from afternoon of 10 December, 2013. The period from 31.12.2013 to 10.01.2014 is treated as 'compulsory wait' in Deptt. of Personnel & Training.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No. 20/S/652-Ad.I—Consequent upon his promotion to the grade of Principal Private Secretary of the CSSS vide this Department's O.M. No.3/2/2013-CS.II(A) dated 30.04.2014 and subsequent transfer from Ministry of Road Transport & Highway to this Department, the President is pleased to appoint Shri Yati Raj Sehgal, Private Secretary as Principal Private Secretary on regular basis (Select List- 2013) in the Pay Band 3: Rs 15600-39100, Grade Pay Rs. 6600/-, in the Department of Personnel & Training, with effect from the afternoon of 13.05.2014.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No. 20/S/655-Ad.I—Consequent upon his repatriation from the post of Additional Private Secretary to Hon'ble Minister for Overseas Indian Affairs(Shri Vayalar Ravi) to this Department vide Ministry of Overseas Indian Affairs's Order No.A-12023/01/2006-PA dated 29.05.2014, the President is pleased to appoint Shri A.Y. Anand Raj, Addl PS as Principal Private Secretary(PPS) in the Pay Band 3: Rs 15600-39100, Grade Pay Rs. 6600/-, in the Department of Personnel & Training, with effect from the forenoon of 11.06.2014.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No. 20/S/658-Ad.I—Consequent upon his repatriation from the post of Additional Private Secretary to Hon'ble Minister for Steel(Shri Beni Prasad Verma) to this Department vide Ministry of Steel's Order No.2(1)/2011-Estt. dated 28.05.2014, the President is pleased to appoint Shri Panna Lal, Addl PS as Principal Private Secretary(PPS) in the Pay Band 3: Rs 15600-39100, Grade Pay Rs. 6600/-, in the Department of Personnel & Training, with effect from the forenoon of 11.06.2014.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No.20/G/1343-Admn.I—Consequent upon his promotion to the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service vide DoP&T's Order No. 5/13/2013-CS-I(U) dated 23.09.2013 and O.M.No.5/13/2012-CS-I(U) dated 04.11.13 granting proforma promotion to Shri M.K. Harikumar, presently on deputation with O/o the Principal Scientific Adviser to GOI, Shri M. K. Hari Kumar is appointed as Under Secretary (SL:2011) on regular basis w.e.f. 23.09.13(F.N.) in the Pay Band(PB-3) of Rs. 15600-39100/- + Grade Pay of Rs.6600/-.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No.20/G/1610-Ad.I—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Principal Private Secretary of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) for the year 2012 and nomination to Department of Personnel & Training vide this Department's Order No. 3/6/2012-CS-II(A) dated 30th August, 2013, the President is pleased to appoint Shri M. Venkateswara Rao, Private Secretary of CSSS cadre of Ministry of Power as Principal Private Secretary on regular basis in the Pay Band 3: Rs 15600-39100, Grade Pay Rs. 6600/-, in the Department of Personnel & Training, with effect from the forenoon of 04.09.2013 and until further orders.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No.20/G/1625-Admn.I—Consequent upon his transfer from the department of Posts, to this department vide DoP&T's Order No. 5/1/2014-CS-I(U) dated 16.01.2014, Shri Sanjay Mehta, Under Secretary is taken on strength of Department of Personnel & Training in the PB-3 of Rs. 15600-39100/- + Grade Pay of Rs. 6600/- with effect from forenoon of 31st January, 2014.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No.20/G/1630-Admn.I—Consequent upon his transfer from Ministry of Commerce & Industry to this department vide DoP&T's Order No. 5/10/2013-CS-I(U) dated 20.12.2013, Shri Abhay Jain, Under Secretary is taken on strength of Department of Personnel & Training in the PB-3 of Rs. 15600-39100/- + Grade Pay of Rs. 6600/- with effect from afternoon of 31st January, 2014.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No.20/G/1644-Admn.I—Consequent upon her posting to as Under Secretary in DoP&T under Central Staffing Scheme vide Establishment Division's communication No. 6/2/2014-EO(MM-I) dated 19.03.2014, The President is pleased to appoint Ms. Meera Mohanty, as Under Secretary in the Department of Personnel & Training, in the PB-3 of Rs. 15600-39100/- + Grade Pay of Rs. 6600/- with effect from forenoon of 02nd May, 2014 for a period of three years or until further orders.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No. A- 38014/10/2013-Admn.I—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Bihari Lal Baurai, P.P.S., Department of Personnel and Training retired from Government Service with effect from the afternoon of 28th February, 2014.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No. A.32013/05/2013-Ad.I—Consequent upon his transfer from Ministry of Petroleum & Natural Gas to this Department vide Order No.05/05/2013-CS.I(U)(Pt.I) dated 29.05.2013, Shri R.S.Sikdar, Under Secretary is taken on strength in the Department of Personnel & Training, in the Pay Band 3: Rs 15600-39100, Grade Pay Rs. 6600, with effect from the forenoon of 16.09.2013, and until further orders.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No. A.32013/02/2013-Ad.I—Consequent upon his transfer from Ministry of Power to this Department under Rotational Transfer Policy of CSS officers vide Order No. 4/3/2013-CS.I(D) dated 18th June, 2013, Shri N.Sriraman is taken on strength of Department of Personnel & Training in the Pay Band PB-3 of Rs. 15600-39100/- + Grade Pay of Rs. 7600/- with effect from forenoon of 01st November, 2013 and until further orders.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No. A.32013/02/2013-Ad.I —Consequent upon his selection for appointment as Deputy Secretary under Central Staffing Scheme vide EO Division's OM No. 6/31/2013-EO(MM-I) dated 23rd October, 2013, Shri Jagannath Srinivasan, IPoS-2002 is taken on strength of Department of Personnel & Training in the Pay Band PB-3 of Rs. 15600-39100/- + Grade Pay of Rs. 7600/- with effect from afternoon of 01st November, 2013 for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No. A- 38014/06/2014-Admn.I—Consequent upon attaining the age of superannuation, Smt. Indu Chopra, Private Secretary., Department of Personnel and Training retired from Government Service with effect from the afternoon of 30th June, 2014.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No. A- 38014/01/2014-Admn.I—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri S. K. Sarkar, IAS[WB:1979], Secretary, Department of Personnel and Training retired from Government service, with effect from the afternoon of 31st July, 2014.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No.32013/1/2014-Ad.I—Consequent upon his transfer from Staff Selection Commission to this department vide DoP&T's Order No. 5/3/2014-CS-I(U) dated 27.6.2014, Shri Ashok Kumar Roy, Under Secretary is taken on strength of Department of Personnel & Training in the PB-3 of Rs. 15600-39100/- + Grade Pay of Rs. 6600/- with effect from forenoon of 27th June, 2014.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No.32013/1/2014-Ad.I—Consequent upon his transfer from Ministry of Urban Development to this department vide DoP&T's Order No. 5/1/2014-CS-I(U) dated 17.6.2014, Shri Raj Kishan Vatsa, Under Secretary is taken on strength of Department of Personnel & Training in the PB-3 of Rs. 15600-39100/- + Grade Pay of Rs. 6600/- with effect from afternoon of 24th June, 2014.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 3rd September 2014

No. 24/PA-II/2014—The President is pleased to appoint the following officers of Grade-I of IFS(B) to the Senior Scale of Indian foreign Service with effect from the date mentioned against his name:

S.No:	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Promotion to Senior Scale of IFS
1.	Siddhartha Chattopadhyay	01.09.2014
2.	Debabrata Chattopadhyay	01.09.2014
3.	Madan Lal Raigar	01.09.2014

2. The above mentioned officers will be on probation for a period of two years from the date of their promotion to Senior Scale.

3. The above appointment will be subject to any Court decision, which may have a bearing on these promotions.

PAULOMI TRIPATHI, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 26th August 2014

No.13019/11/84/PF-IES—Consequent upon the acceptance of his request for voluntary retirement under Rule 48 of the Central Civil Services (Pension) Rule, 1972 by the Competent Authority, Shri Yash Pal, (IES: 1984), Secretary Finance and Principal Adviser, Government of Haryana on deputation stands Voluntarily Retired from Government Service w.e.f. 06.08.2014 (AN).

SUDHIR SHYAM, Director (IES)

New Delhi, the 1st September 2014

No. 13028/01/2013-PF-IES—The President is pleased to accept the technical resignation of Shri Saket Malviya, an officer of the Indian Economic Service (IES: 2013) with effect from 29.08.2014 (AN), consequent upon his selection in the Indian Administrative Service (IAS) through Civil Services Examination-2013 conducted by the Union Public Service Commission.

DEEPAK RAO, Dy. Director (IES)

No. 13028/02/2013-PF-IES—The President is pleased to accept the technical resignation of Shri Rahul Kumar Rakesh, an officer of the Indian Economic Service (IES: 2013) with effect from 25.08.2014 (FN), consequent upon his selection in the Indian Foreign Service (IFS) through Civil Services Examination-2013 conducted by the Union Public Service Commission.

DEEPAK RAO, Dy. Director (IES)

No. 13028/07/2013-PF-IES—The President is pleased to accept the technical resignation of Shri Satvik Dev, an officer of the Indian Economic Service (IES: 2013) with effect from 29.08.2014 (AN), consequent upon his selection in the Civil Services Examination-2013 conducted by the Union Public Service Commission.

DEEPAK RAO, Dy. Director (IES)

No. 13028/11/2013-PF-IES—The President is pleased to accept the technical resignation of Ms. Prerna Shahi, an officer of the Indian Economic Service (IES: 2013) with effect from 25.08.2014 (FN), consequent upon her selection in the Indian Foreign Service (IFS) through Civil Services Examination-2013 conducted by the Union Public Service Commission.

DEEPAK RAO, Dy. Director (IES)

The 2nd September 2014

No. 13028/01/87/PF-IES—Consequent upon the acceptance of his request for voluntary retirement under Rule 48(1) of the Central Civil Services (Pension) Rule, 1972 by the Competent Authority, Shri Rajeev Malhotra (IES: 1987), stands voluntarily retired from Government service w.e.f. 31.08.2014.

DEEPAK RAO, Dy. Director (IES)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi -110001, the 2nd September 2014

No. PFG(1064)/2014-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Ajai Das Mehrotra, IRS (IT:84) as Joint Secretary in the Ministry of Corporate Affairs in the Pay Band of Rs.37400—67000/- (PB-4) plus grade Pay of Rs.10000/-, for a period of five years with effect from the forenoon of 29th August, 2014 i.e. upto 28th August, 2019 or until further orders, whichever is earlier.

RAVI VAZIRANI, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi-110107, the 4th November 2013

No.A-12023/4/2013-E.I: The President is pleased to appoint Shri G.D. Panigrahi, a regular Library and Information Assistant in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, as Assistant Library and Information Officer in the same Department on ad-hoc basis in the Pay structure PB-2(Rs.9300—34800) plus Grade Pay of Rs.4600/- for a period of one year w.e.f. the afternoon of 28th October, 2013 or till a regular Assistant Library and Information Officer is appointed or until further orders, whichever is the earliest.

2. The above appointment has been ordered purely on ad-hoc basis and will not confer any right on the officer to continue indefinitely or for seniority in the grade or for promotion to the higher grade etc.

L. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 1st August 2014

No. A-12022/17/2014-Estt—The President is pleased to appoint Shri Manu Tentiwal, IRS(IT:2003)(03003) as Private Secretary to Shri Santosh Kumar Gangwar, Minister of State for Textiles (IC) at the level of Deputy Secretary, in PB-3 of Rs.15600—39100 + Grade Pay Rs.7600, in the Ministry of Textiles, for a period up to 14.06.2018 with effect from the forenoon of 1st August, 2014 on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

S. P. KATNAURIA, Director

No.A-19011/8/2014-Estt : The President is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar Panda, IAS (MT:80) as Secretary, Ministry of Textiles with effect from the forenoon of 1st August, 2014.

S. P. KATNAURIA, Director

New Delhi, the 8th August 2014

No.A-19011/10/2014-Estt. : The President is pleased to appoint Shri R.V. Subra Mani, Grade – I (Under Secretary) of Central Secretariat Service to the Selection Grade (Deputy Secretary) in PB-3 (Rs.15600—39100 + Grade Pay of Rs.7600) on adhoc basis w.e.f. the forenoon of 4th August, 2014 in the Ministry of Textiles initially for a period of one year or until further orders, whichever is earlier, in pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 4/2/2014-CS-I(D) dated 21st July, 2014.

MATIAS BIHAN, Under Secy.

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 1st August 2014

No. 3/21/2003-Estt.(Vol.-II)—In pursuance of DoP&T's O.M. No. 17/4/2013-EO (MM-I) dated 24.07.2014, the President is pleased to re-designate Shri Prithul Kumar, Deputy Secretary as Director in Ministry of Mines w.e.f. 30.07.2014 (F/N) for a period up to 18.12.2018 i.e. total tenure of five years under the Central Staffing Scheme.

A. K. MALLIK, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 3rd September 2014

No. PF(2927)/E.I.—The President is pleased to accept the notice dated 10.06.2014 given by Smt. Kumkum Bhatnagar, Section Officer of Central Secretariat Services (CSS) of the Department of Food & Public Distribution, under FR 56(k) for voluntary retirement from Government service. Accordingly, Smt. Kumkum Bhatnagar, Section Officer will stand retired voluntarily from Government Service on the forenoon of 11.09.2014.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi-1, the 22nd August 2014

No.A-22012/1/2006-Estt.—The President is pleased to appoint Smt. Pratibha Rani (CSL 8269), of Central Secretariat Service as Under Secretary on 'regular' basis w.e.f. 4th July, 2014 in the Ministry of Panchayati Raj, in the Pay Band (PB-3) Rs. 15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 6600/-.

R. SHIVA KUMAR, Under Secy.

The 8th September 2014

No. A-32013/1/2014-Estt.—Consequent upon their inclusion in the Select List year 2012 for appointment to Grade-I (Under Secretary) of CSS vide Department of Personnel & Training O.M. No. 5/6/2013-CS.I(U), dated 4th July, 2014, the President is pleased to appoint the following officers as Under Secretary of CSS on regular basis w.e.f. 04.07.2014 in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 6600/-.

Sl. No.	Name of Officer S/Sh.	CSL No.	Post held and place of posting	Select list of US Grade allotted.
1	Arvind Kumar Mishra	7251	Under Secretary (ad-hoc), M/o Panchayati Raj	2012
2	Puneet Sharma	7358	Under Secretary (ad-hoc), M/o Panchayati Raj	2012
3	Sanjay Kumar Upadhyay	7365	Under Secretary (ad-hoc), M/o Panchayati Raj	2012

R. SHIVA KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 9th July 2014

No. A-32015/2/2014-E-III: The President is pleased to appoint Smt. Meena Soni, Personal Assistant (Central Secretariat Stenographer Service) of the Ministry of Petroleum and Natural Gas as Private Secretary in the cadre unit of Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) on regular basis in PB-2

(Rs.9300—34800+Grade Pay Rs.4800/-) with effect from 02.07.2014(AN) upon inclusion of her name in the Select List of Private Secretary for the Select List Year 2012.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

The 23rd July 2014

No. A-32015/2/2014-E-III: The President is pleased to appoint Shri Madan Mohan Sharma, Personal Assistant (Central Secretariat Stenographer Service) of the Ministry of Urban Development as Private Secretary in the cadre unit of Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) on regular basis in PB-2 (Rs.9300—34800+Grade Pay Rs.4800/-) with effect from 18.07.2014(AN) upon inclusion of his name in the Select List of Private Secretary for the Select List Year 2012.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 25th April 2014

No.4-2/2013-Admn.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Smt Padmaja Mehta, Senior Economic Adviser in the Ministry of Women and Child Development shall stand retired from Government service with effect from 30.04.2014 (afternoon).

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 16th May 2014

No.3-2/2010-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No.7/5/2011-EO(SM.I) dated 01st May, 2014, Dr. Shreeranjana, IAS (AM:85), Joint Secretary in the Ministry of Women and Child Development is relieved with effect from the forenoon of 19/5/2014 to take up his new assignment as Deputy Director General in the Unique Identification Authority of India (UIDAI) HQ.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 27th May 2014

No.2-1/2009-Admn.—Consequent upon demitting of office by Smt Krishna Tirath, Minister of State for Women & Child Development (Independent Charge), Shri Sanjeev Khirwar, IAS(AGMUT:94), Private Secretary to Minister of State (IC) for Women and Child Development is relieved from the Ministry with effect from the afternoon of 10/6/2014 for reporting in the Department of Personnel and Training.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 14th July 2014

No.5-7/2013-Admn.—Consequent upon inclusion of his name to Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Select List for the year 2012 vide DoPT's OM No.5/6/2013-CS.I(U) dated 04th July, 2014, the President is pleased to appoint Shri Mohan Lal (CSL No.7814), a regular Section Officer to Grade-I (Under Secretary) on regular basis in the Pay Band PB-3, Rs.15600—39100/- with Grade Pay of Rs.6600/- in the CSS cadre of Ministry of Women and Child Development with effect from 04th July, 2014(FN).

NAVEEN YADAV, Under Secy.

No.22-39/2011-Admn.—In pursuance of Department of Economic Affairs' Orders No.13016/2/2014-IES dated 06/03/2014 and 20/06/2014, the President is pleased to appoint Ms. Kirti Saxena, IES (1982) as Economic Adviser in the Pay Band of Rs.37400—67000/- (PB-4) with Grade Pay of Rs.10,000/- in Ministry of Women and Child Development with effect from the forenoon of 1st July, 2014 till further orders.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 15th July 2014

No.4-20/2010-Admn.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri H.S. Nanda, Director in the Ministry of Women and Child Development shall stand retired from Government service with effect from 31.07.2014 (afternoon).

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 22nd July 2014

No.4-10/2014-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No.26/7/2014-EO(SM.I) dated 12.07.2014 and consequent upon being relieved by Government of Meghalaya vide their Notification No. PER.15/IAS/VSO/114 dated 21st July, 2014, the President is pleased to appoint Shri Vinay Sheel Oberoi, IAS (AM:79) as Secretary, Ministry of Women and Child Development with effect from the forenoon of 22nd July, 2014.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 30th July 2014

No.2-2/2014-Admn.—In pursuance of DoPT's OM No.4/5/2014-EO(MM-I) dated 3rd July, 2014 and on being relieved by Directorate General of Export Promotion, Department of Revenue vide Order No.DGEP/Admn/56/2011 dated 24th July, 2014, the President is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Arora, IRS(C&CE:1990) as Private Secretary to the Minister of Women and Child Development (Smt Maneka Sanjay Gandhi) in PB-4 (Rs.37400—67000+GP Rs.8700/-) for a period of five years at the level of Director with effect from the forenoon of 25th July, 2014 on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever even occurs the earliest.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 4th August 2014

No.5-12/2012-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 26/7/2014-EO(SM.I) dated 12.07.2014, the President is pleased to relieve Shri Shankar Aggarwal, IAS(UP:80), Secretary, Ministry of Women and Child Development with effect from the forenoon of 14th July, 2014 for taking up his new assignment as Secretary, Ministry of Urban Development.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 12th August 2014

No.2-2/2014-Admn.—The President is pleased to appoint Smt Manjeet Gupta as Assistant Private Secretary to Minister of Women and Child Development (Ms. Maneka Sanjay Gandhi) w.e.f. 28.07.2014 (FN) in PB-3 [Rs.15600—39100] with Grade Pay of Rs.5400/-.

2. The appointment of Smt Manjeet Gupta is co-terminus with the tenure of the Minister or until further orders, whichever is earlier.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

No.27-1/2012-Admn.—In pursuance of DoPT's Order No. 4/2/2014-CS.I(D) dated 31st July, 2014, the President is pleased to appoint Smt Shipra Roy, a regular officer of Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service to the Selection Grade (Deputy Secretary) [PB-3, Rs.15600—39100/-] with a Grade Pay of Rs.7600/- purely on ad-hoc basis in the Ministry of Women and Child Development with effect from the forenoon of 01st August, 2014.

2. The appointment is subject to the terms and conditions mentioned in the DoPT's Order above.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 14th August 2014

No.2-2/2014-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Sanjeev Gupta as Additional Private Secretary to Minister of Women and Child Development (Ms. Maneka Sanjay Gandhi) w.e.f. 12.08.2014 (AN) in PB-3 [Rs.15600—39100] with Grade Pay of Rs.6600/-.

2. The appointment of Shri Sanjeev Gupta is co-terminus with the tenure of the Minister or until further orders, whichever is earlier.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 22nd August 2014

No.2-2/2014-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Anand Lal Chaudhary as Additional Private Secretary to Minister of Women and Child Development (Ms. Maneka Sanjay Gandhi) w.e.f. 19.08.2014 (FN) in PB-3 [Rs.15600—39100] with Grade Pay of Rs.6600/-.

2. The appointment of Shri Anand Lal Chaudhary is co-terminus with the tenure of the Minister or until further orders, whichever is earlier.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 25th August 2014

No.4-10/2012-Admn.—Consequent upon her attaining the age of superannuation, Smt Neelam Sibal, Section Officer in the Ministry of Women and Child Development shall stand retired from Government service with effect from 31.08.2014 (afternoon).

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 26th August 2014

No.4-22/2005-Admn.—Consequent upon her option to retire on voluntary basis under Rule 48(1)(a) of CCS (Pension) Rules, 1972, Smt Sarojini Bhatt, Section Officer in the Ministry of Women and Child Development stands retired from Government service with effect from 22/08/2014 (forenoon).

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 4th September 2014

No.2-2/2014-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Dalip Chand Sharma as First Personal Assistant to Minister of Women and Child Development (Ms. Maneka Sanjay Gandhi) w.e.f. 01.06.2014 (FN) in PB-2 [Rs.9300—34800] with Grade Pay of Rs.4800/-.

2. The appointment of Shri Dalip Chand Sharma is co-terminus with the tenure of the Minister or until further orders, whichever is earlier.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 23rd July 2014

No.A-32013/01/2014-Estt. In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 5/6/2013-CS.I(U) dated 04.07.2014, the president is pleased to appoint following Under Secretaries (Ad-hoc) of Central Secretariat Service to the Grade I (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) on regular basis in the Department of Disability Affairs w.e.f. the forenoon of 04.07.2014 consequent upon their inclusion in the Select List for the year 2012:—

S.No.	Name of the Officer (Shri)	CSL No.
1.	Sunil Kumar Mehto	7284
2.	Arun Kumar Mandal	7963
3.	D. K. Panda	7834

2. The appointment of the above Under Secretaries is subject to the condition prescribed in the Department of Personnel and Training's OM No. 5/6/2013-CS.I(U) dated 04.07.2014.

PRADEEP PUROHIT, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 29th August 2014

No. 4(734)/05-Pers.I—On attaining the age of superannuation, Shri Shiv Kumar Sharma, Assistant Library Information Officer, (Emp. Code - 329) in the Department of Electronics & Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology will retire from service w.e.f. 31.08.2014.

VINOD KUMAR, Deputy Director

No. 4(464)/89-Pers.I—On attaining the age of superannuation, Shri Altaf Khan, Joint Director, (Emp. Code - 266) in the Department of Electronics & Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology will retire from service w.e.f. 31.08.2014.

VINOD KUMAR, Deputy Director

No. 4(832)/09-Pers.I—On attaining the age of superannuation, Smt. Meena Kalyani, Private Secretary, (Emp. Code - 419) in the Department of Electronics & Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology will retire from service w.e.f. 31.08.2014.

VINOD KUMAR, Deputy Director

No. 4(824)/09-Pers.I—On attaining the age of superannuation, Shri N. V. Balakrishnan, Private Secretary, (Emp. Code - 421) in the Department of Electronics & Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology will retire from service w.e.f. 31.08.2014.

VINOD KUMAR, Deputy Director

The 3rd September 2014

No.3(5)/2013-Pers.I—The President is pleased to appoint Shri S. Ramakrishnan, Joint Director (in-situ) as Joint Director on regular basis in the Department of Electronics & Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology in Pay Band-3, Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. Rs. 7600/- p.m. w.e.f. forenoon of 03.09.2014.

VINOD KUMAR, Deputy Director

DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110001, the 23rd June 2014

No. 2-1/2013-Admn.—Consequent upon their inclusion in the Select List of Section Officers' Grade of Central Secretariat Service against Seniority Quota for the Select List year 2011 vide Department of Personnel & Training's O.M No. 6/2/2013-CS.I(S)-III dated 25th September 2013, the Competent Authority is pleased to appoint following regular Assistants of CSS in the cadre of Department of Posts, to the Section Officers' Grade of CSS in the same cadre, in the Pay Band (PB-2) of Rs. 9300-34800/- + Rs. 4800/- (Grade Pay) on regular basis w.e.f. 11.06.2014:-

(I) Shri Ramesh Chander

(II) Shri Avadhesh Joshi

2. The appointment of the above officials would be subject to the conditions mentioned in above mentioned DoP&T's O.M.

VIJAYALAKSHMI BHARADWAJ, Asstt. Director General (Admn.)

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 10th September 2014

No. A.12025/02/2009-RS(Vol-II)—The President is pleased to appoint on deputation basis, Shri E. Srinivas, IRSSE, Sr. DSTE, SWR as Deputy Commissioners of Railway Safety (S&T) in the Pay Band -4 (Rs.37400-67000/-) with Grade Pay Rs.8700/- in the Commission of Railway Safety under the Ministry of Civil Aviation w.e.f 18.06.2014 (FN) for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

AMIT GHOSHAL, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 9th September 2014

No. E(GP)2004/1/49—In partial modification of notification no. E(GP)2007/3/2 dated 08/06/2009, the appointment of Shri Murari Setty Prasad to the Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers (IRSE) on Southern Railway in the 2007-08 panel, may be treated as cancelled.

2. The President is now pleased to appoint Shri Murari Setty Prasad, to Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers (IRSE) with effect from 12/06/2008 on Southern Railway in the 2005-06 panel.

SUMAN SHARMA, Director, Estt(GP)
Railway BoardNew Delhi, the 11th September 2014

No.ERB-I/2007/10/4—Shri Rajiv Kumar Bhandari, Section Officer, Railway Board expired on 20.08.2014.

P. C. GAJBHIYE, Secretary
Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 10th September 2014

No.A-32012/1/2013-Estt.—The President is please to appoint Shri V.S. Sehrawat, Chartering Officer as Deputy Chief Controller of Chartering in the Ministry of Shipping, in the scale of Pay of Pay Band-4, Rs.37400-67000 + Rs. 8700 (Grade Pay) on promotion on regular basis with effect from 05/09/2014 (F/N).

ANURAG SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 8th September 2014

No. LH-21013/1/2012-SL—The President is pleased to promote the following Superintendent to the post of Executive Officer in the PB-2 of Rs. 9300-34800+Grade Pay of Rs. 4600/- in the Directorate General of Lighthouses and Lightships with effect from the dates indicated against each :—

S. No.	Name	Date of Joining as Executive officer
1.	Shri S. Marandi (ST)	05.08.2014 (AN)
2.	Shri N.B. Vekaria	10.07.2014 (AN)
3.	Shri Sachendra Singh Rawat	04.08.2014

SANJAY MITAL, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 5th September 2014

No.A-12025/1/2011-IIS(Pt.file)/729—On the basis of the result of the Civil Services Examination, the President is pleased to appoint the following candidates in the Junior Grade of Indian Information Service, Group 'A' in the Pay Band of Rs.15,600–39,100/- with Grade Pay of Rs.5400/- with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl.No.	Name of the Candidates with CSE No.	Rank No.	Date of appointment	Place of posting
1.	Sh. Shantanu Pratap Singh (CSE – 2011)	400	21.05.2014(FN)	DDN New Delhi
2.	Sh. Reny Wilfred (CSE-2011)	558	23.06.2014(FN)	PIB New Delhi
3.	Sh. Suharsha Bhagat (CSE-2011)	693	13.06.2014 (FN)	DDN New Delhi

2. The above mentioned officers will be on probation for a period of 2 years with effect from the date of appointment in the Junior Grade of Indian Information Service Group 'A'. They have been posted as Assistant Directors in the above mentioned media units until further orders.

NEERAJ KUMAR, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in